

प्रेषिका,

कु०-अफशॉ

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

कक्ष सं०-1, गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा- प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,

जनपद, गोण्डा।


**विषय:- पत्रांक सं०-IV -15675 दिनांकित 06.12.2022 के अनुपालन में चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय न्यायालय के पत्रांक सं०-1377/IV-T083/Admin दिनांकित 23.01.2016 के सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक की चल-अचल सम्पत्ति के विवरण को छायाप्रति के स्थान पर मूल विवरण प्रस्तुत करने के बावत निर्देशित किया गया था, परन्तु चूँकि मेरे द्वारा वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक क्रय विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मूल रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के माध्यम से पत्र सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था, अतः पुनः प्रपत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं था, अतः प्रपत्र प्रेषित नहीं किये जा सके, परन्तु माननीय न्यायालय को अवगत कराने में जो विलम्ब कारित हुआ है, उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

यह भी निवेदन है कि मेरे द्वारा वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक के चल-अचल सम्पत्ति का विवरण क्रमशः पत्रांक सं०-65/1 दिनांकित 22.01.2005 (वर्ष 2004) पत्रांक सं०-981/1 दिनांकित 13.12.2007 के द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2007 तक क्रय की गयी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण तथा पत्रांक सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 के द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक क्रय विक्रय की गयी चल अचल सम्पत्तियों का विवरण पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु माननीय न्यायालय की सुविधा के लिये उपरोक्त विवरण की छायाप्रतियाँ पुनः इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही हैं।

दिनांक:-16.12.2022

  
(कुमाड़ी अफशॉ)

U.P.-6164

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय  
कक्ष सं०-1 गोण्डा।

**संलग्नक:-**

- 1-छायाप्रति पत्रांक सं०-65/1 दिनांकित 22.01.2005 (वर्ष 2004 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)
- 2-छायाप्रति पत्रांक सं०-98/1 दिनांकित 13.12.2007 (वर्ष 2006-2007 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)
- 3-छायाप्रति पत्रांक सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 (वर्ष 2008-2014 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)

Received  
16/12/22

पत्रांक . 338 दि . 17.12.22 - 85

19/12/22  
(शिवशर्मा 1047159)



प्रेषिका,

कु०-अफशॉ

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

कक्ष सं०-1, गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा- प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय,

जनपद, गोण्डा।


**विषय:- पत्रांक सं०-IV -15675 दिनांकित 06.12.2022 के अनुपालन में चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

माननीय न्यायालय के पत्रांक सं०-1377/IV-T083/Admin दिनांकित 23.01.2016 के सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक की चल-अचल सम्पत्ति के विवरण को छायाप्रति के स्थान पर मूल विवरण प्रस्तुत करने के बावत निर्देशित किया गया था, परन्तु चूंकि मेरे द्वारा वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक क्रय विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मूल रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के माध्यम से पत्र सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था, अतः पुनः प्रपत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं था, अतः प्रपत्र प्रेषित नहीं किये जा सके, परन्तु माननीय न्यायालय को अवगत कराने में जो विलम्ब कारित हुआ है, उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

यह भी निवेदन है कि मेरे द्वारा वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक के चल-अचल सम्पत्ति का विवरण क्रमशः पत्रांक सं०-65/1 दिनांकित 22.01.2005 (वर्ष 2004) पत्रांक सं०-981/1 दिनांकित 13.12.2007 के द्वारा वर्ष 2006 से वर्ष 2007 तक क्रय की गयी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण तथा पत्रांक सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 के द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक क्रय विक्रय की गयी चल अचल सम्पत्तियों का विवरण पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु माननीय न्यायालय की सुविधा के लिये उपरोक्त विवरण की छायाप्रतियाँ पुनः इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही हैं।

16/12/22

  
(कुमारी अफशॉ)

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

कक्ष सं०-1 गोण्डा।

संलग्नक:-

- 1- छायाप्रति पत्रांक सं०-65/1 दिनांकित 22.01.2005 (वर्ष 2004 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)
- 2- छायाप्रति पत्रांक सं०-98/1 दिनांकित 13.12.2007 (वर्ष 2006-2007 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)
- 3- छायाप्रति पत्रांक सं०-3306/1 दिनांकित 10.12.2015 (वर्ष 2008-2014 से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति का विवरण)

Recd  
16/12/22

प्रेषण.

शुभ अज्ञात.  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम,  
बदायूं ।

सेवाके.

क्या निवन्धन,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बदायूं ।

विषय: वर्ष- 2004 के मध्य प्र- विद्युत कीमती का एवं  
अवन सभ्यता का विवरण ।

महोदय,

विद्युतता पूर्व निवेदन करना हेतु दिनांक  
07.01.2004 को मेरे द्वारा जनपद के प्रथम बार  
उपर सिविल जन । पुनिर विधीन ।, बदायूं के रूप  
के पदमार प्रणत किया गया हे । वर्ष - 2004 का  
सभ्यता विवरण निर्धारित प्रारूप-का के संलग्न हे ।  
अतः निवेदन हे कि मेरा सभ्यता विवरण  
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा  
करे ।

सत आभान ।

दिनांक: 15.01.2005

20-1-05

भवदीया,

शुभ अज्ञात ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम,  
बदायूं ।

Office of the District Judge, Budaun  
Letter No. 65/I Budaun, Dated ...22/1/05

REWARDED

District Judge, Budaun

10/12/15  
प्रेषक: कु० अफशां,  
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश  
'कोर्ट नं. 12', कानपुर नगर

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय उ०प्र०,  
इलाहाबाद

द्वारा: श्रीमान् ज़िला न्यायाधीश,  
कानपुर नगर

विषय: वर्ष २००८ से २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण

माननीय महोदय,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में वर्ष २००४ से २००७ तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक १३.१२.२००७ को प्रेषित किया गया था, परन्तु उसके पश्चात् के वर्षों में मेरे द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयानुरूप सहबन प्रेषित नहीं किया जा सका, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

अब मेरे द्वारा वर्ष २००८ से वर्ष २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा वर्ष २००८ से वर्ष २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण ससम्मान् माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

सादर प्रेषित!

भवनिष्ठ,

दिनांक: 27.10.2015  
११/१२/१५

(कु० अफशां) 15 (एड UP6164)  
अपर ज़िला न्यायाधीश

'कोर्ट नं. 12', कानपुर नगर

संलग्नकः यथोपरि {उपरोक्तानुसार क्रय-विक्रय की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण}

कार्यालय: ज़िला न्यायाधीश, कानपुर नगर

पत्रांक: 3306/1 कानपुर नगर, दिनांकित: 10, 12, 2015  
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय उ०प्र०  
इलाहाबाद को सादर अग्रसारित,

जनपद न्यायाधीश,

कानपुर नगर

10-12-15

प्रेषक: कु० अफशां,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
'कोर्ट नं. 12', कानपुर नगर

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय उ०प्र०,  
इलाहाबाद

द्वारा: श्रीमान् जिला न्यायाधीश,  
कानपुर नगर

विषय: वर्ष २००८ से २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण

माननीय महोदय,

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में वर्ष २००४ से २००७ तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक १३.१२.२००७ को प्रेषित किया गया था, परन्तु उसके पश्चात् के वर्षों में मेरे द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयानुरूप सहबन प्रेषित नहीं किया जा सका, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

अब मेरे द्वारा वर्ष २००८ से वर्ष २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल-अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।


अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मेरे द्वारा वर्ष २००८ से वर्ष २०१४ तक क्रय-विक्रय की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण ससम्मान् माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। अति कृपा होगी।

सादर प्रेषित!

भवनिष्ठ,

दिनांक: 27.10.2015

१०/१२/१५

  
(कु० अफशां) (१५ उ० प्र० १६४)

अपर जिला न्यायाधीश

'कोर्ट नं. 12', कानपुर नगर

संलग्नकः यथोपरि {उपरोक्तानुसार क्रय-विक्रय की गयी चल व अचल सम्पत्तियों का विवरण}


कार्यालय: जिला न्यायाधीश, कानपुर नगर

पत्रांक: 3306/E

कानपुर नगर, दिनांकित: 10, 12, 2015

महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय उ०प्र०

इलाहाबाद को सादर अग्रसारित,

  
जनपद न्यायाधीश,

कानपुर नगर

10-12-15